

# रहवासी सहकारी समिति

**(म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत)**

अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सोसायटी का उददेश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिध्दांतों के अनुसार संपरिवर्धित करना है या ऐसी संक्रियाओं को सुकर बनाने के उददेश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जो पंजीकृत की गई है ।

**क्र. 1— नाम, पता, कार्यक्षेत्र—**

1	समिति का नाम—	
2	समिति का पंजीकृत पता— (यदि शाखाएं हों तो उसका विवरण)	
3	समिति का कार्यक्षेत्र—	

**क्र. 2—परिभाषाएं—**

1	अधिनियम—	से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से है ।
2	सहकारी वर्ष—	से तात्पर्य 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष है ।
3	पंजीयक—	से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत वर्णित पंजीयक, अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयक से है ।
4	कार्यक्षेत्र—	से तात्पर्य वह क्षेत्र है जहां कि सदस्य समिति की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं ।
5	उपविधि—	से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 6 के निर्धारित विषयों के अंतर्गत तैयार की गई उपविधि से है जो सदस्यों द्वारा मान्य की जाकर पंजीयक से अनुमोदित है । इसमें समय—समय पर कराये गये संशोधन भी मान्य होंगे ।
6	संचालक मंडल—	से तात्पर्य अधिनियम की धारा 48 के अधीन शासी निकाय या प्रबंधन से है जो सोसायटी के कार्यकलापों का प्रबंधन तथा संचालन एवं नियंत्रण करेगा ।

7	<b>वित्तदायी संस्था—</b>	से तात्पर्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर की सहकारी संस्था या केंद्र या राज्य सरकार या जिला/राज्य स्तर की बैंक जो सहकारी सोसायटी को या सदस्य को वित्तीय सहायता, अग्रिम या उधार दे ।
8	<b>सदस्य—</b>	से तात्पर्य सोसायटी के रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति व संस्था की उपविधि को स्वीकार कर अधिनियम/नियम एवं उपविधि के अधीन सदस्यता प्रदान करने का आवेदन किया हो व जिसे मान्य किया है । सदस्यता के अंतर्गत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अंशपूँजी में किया गया योगदान भी सम्मिलित है ।
9	<b>नाममात्र का सदस्य—</b>	से तात्पर्य अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत ऐसा सदस्य जिसके द्वारा सदस्यता के रूप में अंश क्रय किया गया है किन्तु उसे सोसायटी के प्रबंध या लाभांश की अधिकारिता नहीं होगी और सोसायटी के परिसमापन की दशा में लिये गये अंश को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा ।
10	<b>कार्यपालक मजिस्ट्रेट—</b>	से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 के अधीन नियुक्त अधिकारी ।
11	<b>अधिकारी—</b>	से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो सोसायटी की उपविधि के अनुसार निर्वाचित या नियुक्त किया गया है । इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध संचालक, कोषाध्यक्ष सम्मिलित हैं । इसमें सोसायटी से कारोबार के संबंध में निर्देश देने, कार्य करने, कार्यसंचालन में सहयोग देने के लिये अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचित किये गये या नियुक्त किये गये व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ।
12	<b>विनिर्दिष्ट पद—</b>	से तात्पर्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से है ।
13	<b>सेवानियम—</b>	से तात्पर्य म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 55 (1) के अंतर्गत नियुक्त किये गये अधिकारी/कर्मचारियों के कार्य संचालन के लिये बनायी गयी नियमावली से है ।
14	<b>संपरीक्षक—</b>	से तात्पर्य सहकारी सोसायटी के लेखाओं के संपरीक्षण के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति या सनदी लेखापाल या सनदी लेखापाल फर्म से है ।
15	<b>लाभांश—</b>	से तात्पर्य सोसायटी के लाभों में से सदस्य द्वारा धारित किये गये पूर्ण प्रदत्त अंश के अनुपात में निर्धारित राशि से है ।
16	<b>लोकसेवक—</b>	से तात्पर्य ऐसा प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति जो सहकारी सोसायटी का अधिकारी एवं कर्मचारी है तथा जो अधिनियम/नियम/उपविधि के अधीन प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत कार्य किये जाने के लिये अधिकृत किया गया है, वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोकसेवक समझा जाएगा ।

### क्र. 3 उद्देश्य एवं कार्य-

समिति के निम्नलिखित उद्देश्य एवं कार्य होंगे—

1		सोसायटी अपने परिसर में दैनिक साफसफाई की व्यवस्था करेगी। इस हेतु परिसर क्षेत्र सड़कों की सफाई, धुलाई, बागबगीचों की सफाई, नालियों की सफाई आदि एवं रहवासी भाग की देखरेख करना।
2		सोसायटी अपने परिसर में सभी सड़कों पर प्रकाश(विद्युत) की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। सड़कों, उद्यानों, खेलकूद के प्रांगण, कम्युनिटी हाल आदि में पर्याप्त विद्युत की व्यवस्था हो इसका कियान्वयन सुनिश्चित किया जावेगा। समय समय पर इनका मेंटेनेंस एवं तत्संबंधी अन्य समस्याओं का निराकरण।
3		सोसायटी अपने परिसर में सीवेज लाइन, सीवेज टेंक आदि के रखरखाव भी सुनिश्चित करेगी। समय समय पर नल लाइन एवं सीवेज/डेनेज लाइन की सफाई एवं मरम्मत की व्यवस्था।
4		सोसायटी परिसर के सभी आवासों में दैनिक जल प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। जल प्रदाय ओवर हेड टेंक की साफ सफाई/मरम्मत, आवश्यकता अनुसार टंकी में दवाई डलवाना तथा उसमें प्रयुक्त विद्युत मोटर, जल प्रदाय आदि का मेंटेनेंस।
5		सोसायटी के परिसर में निर्मित प्रकोष्ठ धारियों एवं उनकी सम्पत्ति आदि की सुरक्षा की व्यवस्था करना भी सोसायटी सुनिश्चित करेगी। इस हेतु सोसायटी सुरक्षा कर्मचारियों की नियकित करना। सोसायटी के विभन्न प्रवेश व्हारों पर सुरक्षा एवं तत्संबंधी कार्य तथा सोसायटी परिसर में आने वाले आगन्तुकों के संबंध में पूर्ण विवरण/तहकीकात करने के उपरांत ही उन्हें प्रवेश देना।
6		सोसायटी प्रकोष्ठों के रहवासियों के स्वस्थ मनोरंजन आदि के लिये सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी करना सुनिश्चित करेगी। इस हेतु सोसायटी सभी सदस्यों से विचार विमर्श कर तदनुसार कियान्वयन करेगी। ऐसे आयोजनों से सदस्यों के पारिवारिक सौहार्द एवं एकता की भावनाएं बलवती होगी।
7		सोसायटी अपने सदस्यों एवं उनके बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिये समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करगी तथा बच्चों के लिये खेलकूद की प्रतियोगिताओं का संचालन भी करेगी ताकि उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना का संचार हो सके। प्रकोष्ठधारियों के बच्चों के स्वस्थ मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम कर उन्हें पारितोषिक भी प्रदान करना।
8		सोसायटी अपनी आवश्यकतानुसार परिसर के अंदर सौन्दर्यीकरण एवं पार्क आदि को विकसित करना।

9		प्रकोष्ठधारियों एवं उनके परिजनों के शैक्षणिक एवं सामान्य ज्ञानवर्धन हेतु परिसर में वाचनालय/लायब्रेरी स्थापित कर उसका संचालन भी सुनिश्चित किया जाएगा । इस प्रकारके क्रियाकलाप से रहवासियों के ज्ञान एवं उनकी तर्कशमता में वृद्धि ।
10		स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना । प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा 24 घंटे नर्स/कम्पाउण्डर के माध्यम से उपलब्ध कराना ।
11		लिफ्ट की मरम्मत कराना एवं चालू रखने के प्रयास करना ।
12		परिसर की सुरक्षा व्यवस्था करना एवं सीसीटीवी केमरे लगाना
13		रहवासी भाग, परिसर के कारीडोर चढ़ाव, पार्किंग स्थल छत्ते, लिफ्ट नलकूप मोटरें, मीटर रूप आदि पर सभी सदस्यों का समानहित एवं अधिकार है सभी के समान अधिकार एवं हितों की रक्षा करना । उपरोक्त सभी समिलित वस्तुएं आदि समिति के कब्जे एवं आधिपत्य में हैं अतः उन पर किसी रहवासी के अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को रोकना ।
14		प्रकोष्ठ स्वामी को प्रकोष्ठ में फेर बदल की उचित अनुमति देना एवं ऐसा कार्य करने से रोकना जिससे भवन या अन्य प्रकोष्ठ को क्षति पहुंचने की संभावना हो ।
15		किसी भी प्रकोष्ठ से पानी के रिसाव या अन्य कारण से भवन या अन्य प्रकोष्ठ को क्षति हो रही हो तो दोषी प्रकोष्ठ स्वामी सदस्य से उक्त क्षति की मरम्मत कराने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करना ।
16		रहवासी क्षेत्र में व्यापारिक एवं व्यवसायिक असामाजिक गतिविधियों को रोकना ।
17		परिसर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराना ।
18		अन्य काम जो उपरोक्त कार्यों से संबंधित हो एवं समिति के उद्देश्यों की पूर्ति करते हों ।

#### क. 4 रहवासी सहकारी समितियों से लाभांवित होने वाले व्यक्तियों/समूहों का विवरण –

1		रहवासी सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में रहने वाली प्रकोष्ठधारी, किरायेदार ।
2		असंगठित रूप से घरों में कार्य करने वालने कामकाजी मजदूर ।
3		प्लम्बर, सफाईकर्मी, सुरक्षाकर्मी, मैकेनिक इत्यादि को रोजगार प्राप्त होगा ।
4		कालोनी/प्रकोष्ठों में रह रहे वरिष्ठजन इत्यादि ।

### क्र. 5—सदस्यता:-

व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे—

1		व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो ।
2		व्यक्ति भारतीय संविदा(अनुबंध) अधिनियम 1872 की धारा-11 के अंतर्गत संविदा करने में सक्षम हो ।
3		अन्य कोई समिति ।
4		प्रभावशील विधि के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकृत/स्थापित/गठित फर्म/कंपनी/निगमित निकाय ।
5		राज्य सरकार ।
6		शासन द्वारा किसी आदेश विशेष से पंजीकृत की गई कोई समिति ।

### क्र. 6—सदस्यता का प्रकार:-

1		वह सदस्य बन सकेगा जो प्रकोष्ठ, प्लॉट,फ्लेट, आवास का स्वामी हो । प्रकोष्ठ स्वामी के पश्चात उसका वारिस उसके स्थान पर सदस्य होगा ।
2		सहकारी संस्था के उद्देश्यों के निर्वहन में जो सहकारी समिति के माध्यम से अपना व्यवसाय कर रहा हो । समिति को व्यवसाय करने में सहयोगी हो वह एक अंश कर्य कर नाममात्र का सदस्य बन सकता है ।
3		वे व्यक्ति भी सदस्य हो सकेंगे जिन्हें नामांकित किया गया है और वे सदस्य होना चाहते हैं ।
4		ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी नैतिक/आपराधिक रूप से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और वह अवधि को 5 वर्ष व्यतीत हो गये हैं वे सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता की स्थिति में उसे कार्य करने के लिये किसी विधि या न्यायालयीन आदेश से प्रतिबंधित किया गया है वे सदस्य नहीं हो सकेंगे और वह व्यक्ति भी सदस्य नहीं हो सकेगा जिसे शासकीय या नगर निकाय, मंडी, सहकारी संस्था या अन्य कोई सार्वजनिक उपकरण से पदच्युत कर दिया हो ।

### क्र. 7—सदस्यता प्रदान करना:-

1		संस्था के पंजीयन के समय पंजीयन प्रस्ताव के साथ निर्धारित प्रपत्र में संस्था का आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, उस आवेदन का प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष/कार्यकारिणी द्वारा स्वीकार किया जावेगा ।
---	--	---

2		संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण जानकारी देते हुए अध्यक्ष को संबोधित आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जो प्रबंधक के द्वारा प्राप्त कर संचालक मंडल की बैठक में रख कर निर्णय लिया जाए कि उसका आवेदन मान्य/अमान्य किया गया है। संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किये जाने की स्थिति में अनिवार्यतः 15 दिवस की अवधि में योग्य माध्यम से अवगत कराया जावेगा एवं जिस माध्यम से उसे अवगत कराया गया है उस संबंधी कार्यवाही रेकार्ड में सुरक्षित रखी जावेगी।
3		सदस्यता के लिये एक पंजी संधारित की जावेगी जिसमें सदस्यता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन का ब्यौरा होगा। सदस्यता के आवेदन को स्वीकार किये जाने की स्थिति में संबंधित आवेदक को सूचित कर अंश पूंजी एवं प्रवेश शुल्क से अवगत कराया जावेगा। मांग की गई राशि जमा किये जाने की स्थिति में सदस्य का नाम सदस्यता पंजी में अंकित कर सदस्यता प्रदान करने की स्वीकृति एवं अंश प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
4		सदस्यता पंजी में प्रविष्टि किये जाने के समय सदस्य को आहूत कर उसके हस्ताक्षर लिये जाएंगे तथा नामांकित/वारिस की जानकारी ली जाएगी। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य की मांग भी की जा सकती है।

#### क्र. 8—सदस्यता की समाप्ति:-

1		कोई भी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने के उपरांत सदस्यता प्रदान कर दी गई हो उसके पश्चात अधिनियम/नियम एवं उपविधि की निर्दिष्ट अर्हता नहीं रखता हो तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
---	--	--

#### क्र. 9—सदस्यता वापस लेना:-

1		अधिनियम एवं नियमों के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कोई सदस्य प्रक्रिया का पालन कर सदस्यता वापस ले सकेगा।
2		सदस्यता वापस लेने की स्थिति में विधिक प्रावधान के अंतर्गत एक वर्ष तक सदस्य के रूप में बाध्यताओं की पूर्ति अपेक्षित रहेगी।

3		सदस्यता वापस लेने की स्थिति में सदस्य की अंश राशि या सदस्यता हित किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा । इसके लिये एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई हो । इस संबंध में अधिनियम की धारा-25 अंशों या हितों के अंतरण पर निर्बंधन प्रभावशील होगा ।
4		सदस्य के द्वारा सदस्यता वापसी की स्थिति में सहकारी सोसायटी नियम-20 के प्रावधानों के अंतर्गत अंश का मूल्यांकन किया जाएगा । मूल्यांकन में यदि अंश का अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य हो तो अंकित मूल्य और उससे कम मूल्य है तो कम मूल्य दिया जाएगा ।

#### क्र. 10—सदस्यों का रजिस्टर:

1		प्रत्येक सोसायटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी एवं उसमें निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी—
	क—	प्रत्येक सदस्य का नाम, पता एवं उसकी उपजीविका,
	ख—	उस दशा में जहां कोई सोसायटी अंशपूंजी रखती है, के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश,
	ग—	वह तारीख जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया,
	घ—	ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

#### क्र. 11— अंशपूंजी:

1	अधिकृत अंशपूंजी—	1— एक अंश रु. 1000/- का होगा यह.....अंशों में विभक्त होगा ।
2	प्रदत्त अंशपूंजी—	1— प्रत्येक सदस्य को एक अंश लेना अनिवार्य होगा ।
		2— कोई भी सदस्य सोसायटी की कुल अंशपूंजी के 1/5 या रु. 20000/- से अधिक के अंश या हित नहीं रखेगा । इस संबंध में राज्य शासन अधिसूचना जारी कर छूट प्रदान कर सकता है ।
		3— प्रत्येक सदस्य को एक अंश की संपूर्ण राशि एक साथ जमा करानी होगी ।
		4— सदस्यों को अंश प्रमाणपत्र दिये जाएंगे जिनमें एक से अधिक अंशों का समायोजन कर एक अंश प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है ।
		5— अंश प्रमाणपत्र पर संस्था के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं संस्था की पदमुद्रा अंकित होना अनिवार्य है ।

	<b>6—</b>	सदस्य का अंश अंतरण अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अंतर्गत होगा ।
	<b>7—</b>	अंश की बिक्री, उपहार या अन्य किसी प्रकार का अंतरण नहीं होगा या अधिनियम/नियम की वर्णित प्रक्रिया के अनुसार होगा ।
	<b>8—</b>	अंशपूँजी की वापसी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-17 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी एवं उसका मूल्यांकन नियम-20 के अंतर्गत होगा ।

#### क्र. 12—सदस्य का दायित्व:—

<b>1</b>	संस्था पर सदस्यों का दायित्व उसके अंश के मूल्यों का 10 गुना होगा । सदस्यों के दायित्व उस ऋण तथा अन्य संस्था पर अलग होंगे तथा समय दो वर्ष तक का होगा ।
----------	---

#### क्र. 13—पूँजी एवं निधियां:—

संस्था द्वारा पूँजी एवं निधियां निम्नानुसार ली जाएंगी –

<b>1</b>	अंश विक्रय से
<b>2</b>	प्रवेश शुल्क से
<b>3</b>	अमानत जमा कराकर
<b>4</b>	अग्रिम धन जमा कराकर
<b>5</b>	अनुदान प्रदान कर
<b>6</b>	शुद्ध लाभ से निधियों का निर्माण कर
<b>7</b>	राज्य/केंद्र सरकार से अंशपूँजी प्राप्त कर
<b>8</b>	शासन द्वारा या पंजीयक द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश या अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अंतर्गत निधियों का निर्माण कर ।

#### क्र. 14—संचालक मंडलः—

1	क—	संचालक मंडल में 11(ग्यारह) निर्वाचित सदस्य होंगे । इन निर्वाचित सदस्यों के लिये संचालक मंडल द्वारा भौगोलिक आधार पर टेरेटरी निर्धारित की जाएगी ।
	ख—	प्रबंध संचालक /मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पदेन सदस्य सचिव)
	ग—	पंजीयक के प्रतिनिधि के रूप में या शासन से संबंधित विभाग के संचालक — एक
	घ—	वित्तदायी संस्था से वित्त प्राप्त करने की स्थिति मे— एक सदस्य
2		संचालक मंडल का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होगा ।
3		संचालक मंडल की बैठक कम से कम 3 माह में एक बार बुलायी जाएगी और एक वर्ष में 4 बैठक होना आवश्यक है ।
4		संचालक मंडल की बैठक में गणपूर्ति संचालक मंडल की कुल सदस्य संख्या के कम से कम आधे से अधिक पर होगी ।
5		संचालक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा एवं मत बराबर होने की स्थिति मे अध्यक्ष को निर्णयक मत का अधिकार होगा ।
6		संचालक मंडल के सदस्यों से संबंधित यदि कोई विषय संचालक मंडल में विचार के लिये आता है तो उस विषय के विचारण में उस संचालक की सहभागिता नहीं होगी ।
7		किसी विषय विशेष पर निर्णय अत्यावश्यक है और ऐसे विषय को आगामी संचालक मंडल की बैठक तक स्थगित नहीं किया जा सकता है तो उस विषय पर भ्रमणशील प्रस्ताव द्वारा निर्णय लिया जावेगा और हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर सहमति मानी जाएगी । यह कार्यवाही ऐसी मानी जाएगी जैसे कि संचालक मंडल की विधिवत बैठक बुलाई गई हो । आगामी संचालक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा ।
8		संचालक मंडल की बैठक की कार्यवाही विवरण पंजी में अंकित की जाएगी । उस पर अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक के हस्ताक्षर होंगे । कार्यवाही विवरण संचालक मंडल के प्रत्येक सदस्य को बैठक दिनांक से 30 दिन की अवधि में भेजी जाएगी ।

### क. 15—संचालक मंडल के अधिकारः—

#### साधारण सभा के लिये सुरक्षित अधिकार—

अधिनियम/नियम एवं उपविधि के प्रतिबंधों के अधीन संचालक मंडल को संस्था के गठन/प्रबंधन के उददेश्य से एवं कार्यों के निष्पादन के लिये समस्त अधिकार होंगे । विशेषकर निम्नानुसार होंगे –

1		सदस्यता स्वीकार एवं समाप्त करना
2		सभापति एवं अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित करना
3		सभापति और पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और उन्हें पद से हटाने के बारे में निर्णय लेना ।
		परन्तु उपयुक्त प्रयोजन के लिये होने वाले सम्मिलन की अध्यक्षता रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी ।
4		संचालकों द्वारा दिये गये त्यागपत्रों पर निर्णय लेना ।
5		रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारीवृन्द की संख्या नियत करना ।
6		निम्नलिखित के संबंध में नीतियां बनाना—
	ए—	सदस्यों को सेवाएं देने के लिये संगठन एवं उपबंध करना
	बी—	रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारीवृन्द की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तें और कर्मचारीवृन्द से संबंधित अन्य विषय
	सी—	निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग
	डी—	लेखाओं के रखे जाने की रीति
	ई—	निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान
	एफ—	फाईल की जाने वाली कानूनी विवरणियों के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध ।
7		साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय योजना एवं बजट प्रस्तुत करना ।
8		संपरीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना और

9	<p>ऐसे अन्य समर्स्त कृत्य करना जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट हैं ।</p> <p>परन्तु सहकारी साख संरचना के कर्मचारीवृंद की अहताएं, भर्ती, सेवा शर्तों और कर्मचारीवृंद से संबंधित अन्य मामलों की नीतियां, राष्ट्रीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार विरचित की जाएगी ।</p>
---	--

#### क्र. 16—यात्रा भत्ता:-

1	<p>संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित होने के लिये यात्रा भत्ता एवं मानदेय जो पंजीयक एवं आयुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है, के आधार पर दिया जाएगा ।</p>
---	--

#### क्र. 17—संचालक की पात्रता:-

1	<p>संचालक मंडल का सदस्य बने रहने के लिये म.प्र. सहकारी अधिनियम एवं नियम क्र. 44, 45 के प्रावधान के अंतर्गत पात्रता होगी । इसके अतिरिक्त संचालक निर्वाचन की 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक रहेगा ।</p>
2	<p>संचालक को निर्धारित किये गये अंश लेना अनिवार्य होंगे किन्तु किसी भी दशा में एक अंश से कम अंश नहीं होगा ।</p>
3	<p>संस्था में किसी भी प्रकार के पद पर नहीं होगा ।</p>
4	<p>केंद्र/राज्य सरकार या किसी भी सहकारी संस्था के कर्मचारी के रूप में बर्खास्त किया गया कर्मचारी/अधिकारी नहीं होगा ।</p>
5	<p>सहकारी अधिनियम/नियम के अधीन कर्तव्य एवं अधिकारों के निर्वहन, अपेक्षावान रजामंद नहीं होने के प्रावधानों की प्रभावशीलता के कारण भी संचालक की पात्रता नहीं रहेगी ।</p>

#### क्र. 18—साधारण सभा के कार्यः-

साधारण सभा अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत प्रतिवर्ष सहकारी वर्ष समाप्त होने के 6 माह की अवधि में निम्नांकित विषय पर आहूत की जाएगी –

1	<p>गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टी करना ।</p>
2	<p>संचालक मंडल के सदस्य का निर्वाचन यदि वह अपेक्षित हो गया है ।</p>
3	<p>संपरीक्षा रिपोर्ट यदि प्राप्त हुई हो ।</p>

4		शुद्ध लाभ यदि हुआ हो तो उसका व्ययन ।
5		अगले वर्ष के बजट की स्वीकृति ।
6		गत वर्ष के स्वीकृत बजट से अधिक हुए व्ययों की स्वीकृति ।
7		अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संचालक मंडल से प्राप्त पालन प्रतिवेदन ।
8		संचालक मंडल की बैठक एवं अन्य बैठकों में भाग लेने के लिये संचालक मंडल तथा चुने हुए प्रतिनिधियों के लिये दिये जाने वाले भत्ते एवं अन्य भुगतान का निर्धारण ।
9		क्रियाकलापों के कार्यक्रम का जो कि संचालक मंडल द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किया गया हो, अनुमोदन ।
10		उपविधियों में संशोधन ।
11		यदि किसी वर्ष में परिचालन घाटा हुआ हो तो इस घाटे के लिये संचालक मंडल द्वारा बताये गये कारणों का परीक्षण ।
12		आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति करना और पारिश्रमिक तय करना ।
13		अधिनियम/नियम एवं उपनियमों की परिसीमा में रहवासी सहकारी समिति द्वारा प्राप्त की जाने वाली अमानतों, ऋण एवं ऋणपत्रों की अधिकतम सीमा तथा ब्याज दरें निश्चित करना ।
14		संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत या नियमानुसार प्राप्त एवं अनुमत कोई अन्य विषय ।

#### क्र. 19—साधारण सभा :-

1		साधारण सभा संस्था की सर्वोच्च सभा है ।
2		साधारण सभा में राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित सदस्य एवं पदेन सदस्य भी होंगे ।
3		साधारण सभा प्रतिवर्ष सहकारी वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह की अवधि में आहूत की जाएगी ।
4		साधारण सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में साधारण सभा में उपस्थित निर्वाचित सदस्य में से कोई सदस्य जिसका कि निर्णय आमसभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, अध्यक्षता की जाएगी ।

5		संचालक मंडल नहीं होने की स्थिति में साधारण सभा की अध्यक्षता प्रशासक व्दारा की जाएगी । इस संबंध में म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम—36 के प्रावधान लागू होंगे ।
6		साधारण सभा धारा—49 में वर्णित किये गये विषयों पर आहूत की जाएगी किन्तु विशिष्ट परिस्थिति में पंजीयक व्दारा निर्देशित किये जाने की स्थिति में अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत विशेष साधारण सभा आहूत की जाएगी ।

#### क. 20—साधारण सभा की गणपूर्ति :-

1		साधारण सभा के लिये गणपूर्ति सभा का सूचनापत्र दिये जाने की दिनांक को कुल सदस्य या कुल सदस्य के $1/10$ या 50 जो तीनों में से कम है, के व्दारा की जाएगी । इस संबंध में उपविधि में कोई भी प्रावधान होने पर भी गणपूर्ति के लिये यह मान्य होगा ।
2		साधारण सभा का कोई भी कामकाज नहीं किया जाएगा जबतक कि गणपूर्ति नहीं हो जाए ।
3		यदि आमसभा के लिये नियत किये गये समय से $1/2$ घंटे के अंदर गणपूर्ति नहीं होती है तो आमसभा स्थगित की जाएगी और उसी दिनांक, समय एवं स्थान जैसा वह उदघोषित करें, तक के लिये स्थगित होगी और स्थगित की गई आमसभा में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी किन्तु उसमें उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाएगी जो कि सूचनापत्र में वर्णित किये गये थे ।
4		विशेष आमसभा रजिस्ट्रार स्वयं या सदस्यों की कुल संख्या के $1/10$ व्दारा अध्यापेक्षी किये जाने पर बुलाई जाएगी ।
5		विशेष आमसभा सदस्यों की मांग पर बुलाई जाने पर स्थगित नहीं की जाएगी ।

#### क. 21—साधारण सभा के कार्यवृत्त :-

1		साधारण सभा की कार्यवाही के कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये रखी गई पंजी में दर्ज किये जाएंगे । इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे ।
2		साधारण सभा या विशेष साधारण सभा का कार्यवृत्त ऐसी सभा होने के दिनांक से 30 दिन की समयावधि में प्रत्येक सदस्य को प्रेषित किया जाएगा ।

### क्र. 22—निर्वाचन :-

1		संचालक मंडल के निर्वाचन के लिये म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं नियम के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा अधिकृत तथा आदेशित किये गये निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाएगी ।
2		संस्था का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संचालक मंडल के सदस्यों के लिये यह बंधनकारी है कि वे निर्वाचन कार्यवाही में पूर्ण सहयोग दें ।

### क्र. 23—मुख्य कार्यपालन अधिकारी :-

1		संस्था का एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा जो अधिनियम के या बनाये गये कर्मचारी सेवानियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त होगा । यह अधिकारी संचालन मंडल के अधीक्षण/नियंत्रण के अधीन रहते हुए संचालक मंडल द्वारा सोसायटी के कार्यकलापों का प्रबंधन करेगा ।
2		प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी संचालक मंडल का तथा उसके अधीन गठित उप समिति का पदेन सचिव होगा । उसकी शक्तियां निम्नानुसार होगी—
	ए—	मुख्य कार्यपालन अधिकारी दैनिक व्यवसाय, कारोबारी गतिविधियों, कार्यकलापों का संचालन, पर्यवेक्षण, नियमन एवं नियंत्रण करेगा । संस्था का संपूर्ण प्रशासकीय अमला तथा कर्मचारी उसके प्रशासकीय नियंत्रण में एवं पर्यवेक्षण में होंगे । वह उसे प्रदत्त अधिकारों में से अपने अधिकारों को अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों में प्रत्यायोजित कर सकेगा । किन्तु ऐसे अधिकार जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रत्यायोजन में प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रत्यायोजित नहीं कर सकेगा ।
	बी—	संचालक मंडल या स्टाफ उप समिति द्वारा किये गये कर्मचारी संबंधी आदेश को प्रशासकीय रूप में जारी करेगा । इसमें कर्मचारी/अधिकारियों की सेवा समाप्ति, हटाने, आर्थिक दंड देने, अन्य प्रकार के दंड देने, विभागीय जांच के निर्णय में की गई कार्यवाही होगी ।
	सी—	किसी कार्य विशेष के लिये श्रमिक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवानियमों के अंतर्गत नियुक्त करना, उन्हें निलंबित करना, हटाना, बर्खास्त करना, आर्थिक दंड देना ।
	डी—	कर्मचारी/अधिकारी से कोई ऐसा कार्य जिसमें कि शासकीय प्रतिभूति आवश्यक है, तो ऐसी दशा में प्रक्रिया का पालन कर प्रतिभूति प्राप्त करना ।

	<b>ई—</b>	संचालक मंडल एवं उपसमिति द्वारा जो निर्णय लिये गये हैं उनका क्रियान्वयन करना एवं उनके निर्णयों पर आदेश जारी करना ।
	<b>एफ—</b>	संचालक मंडल की स्वीकृति से संस्था के व्यवसाय के संबंध में ऋण प्राप्त करना या व्यवसाय के सफल संचालन हेतु कार्ययोजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना एवं संचालक मंडल के निर्णय के आधार पर विधिक कार्यवाही संपादित करना ।
	<b>जी—</b>	संस्था के विरुद्ध लगायी गई समस्त प्रकार की विधिक कार्यवाही एवं संस्था की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करना या इसके लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना । संस्था की ओर से न्यायिक कार्यवाहियां करना या संस्था के विरुद्ध प्रस्तुत की गई न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष समर्थन करना ।
	<b>एच—</b>	संचालक मंडल के निर्णय अनुसार शासन, सदस्य या अन्य पक्षों के मध्य ठेका, इकरारनामा, भागीदारी, सह-भागीदारी, संयुक्त उद्यम संबंधी कार्य करना । इसके लिये उपनियम, नीति बनाना और उसके अनुमोदन के पश्चात उसका क्रियान्वयन किया जाना ।
	<b>आई—</b>	संस्था की ओर से प्रबंधन के लिये आवश्यक इकरारनामे, दस्तावेज निष्पादित करना या इस संबंध में कार्यवाही किया जाना । चल-अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, इससे संबंधित दस्तावेज व अन्य कार्यवाहियां किया जाना ।
	<b>जे—</b>	संस्था की ओर से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण करना ।
	<b>के—</b>	चल-अचल संपत्ति प्रतिभूति के रूप में दस्तावेजों का गिरवी, पृष्ठांकन जैसे दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना ।
	<b>एल—</b>	संस्था द्वारा किये गये व्यवसाय अंतर्गत कोई राशि विलंबित हो तो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना या समझौता कर उन्मोचित किया जाना ।
	<b>एम—</b>	संस्था की चल-अचल संपत्ति में सुधार(रिपेयर), पुनर्निर्माण, सुसज्जित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना ।
	<b>एन—</b>	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को छोड़कर अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण करना । उनके विरुद्ध विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करना ।

	<b>ओ—</b>	संचालक मंडल एवं उसके द्वारा गठित उपसमितियों की बैठक आहूत करना । सूचनापत्र जारी करना, कार्य सूची तैयार करना, कार्यवृत्त तैयार करना एवं कार्यवृत्त को प्रेषित करना ।
	<b>फी—</b>	संस्था की वार्षिक साधारण सभा बुलाना , इसके अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य योजना तैयार करना ।
	<b>क्यू—</b>	वित्तीय पत्रक तैयार करना एवं संचालक मंडल के अनुमोदन के पश्चात वार्षिक आमसभा से अनुमोदित कराया जाना ।
	<b>आर—</b>	संस्था पर प्रभावशील होने वाले सेवाकर, व्यवसाय कर, आयकर का यथा समय भुगतान करना एवं इस संबंध में होने वाली समस्त विधिक /न्यायिक कार्यवाही करना या उसमें पक्ष समर्थन करना ।
	<b>एस—</b>	संस्था का ऑडिट कराना ।
	<b>टी—</b>	संस्था के व्यापार, लाभ—हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक का निरीक्षण करना, उसे ऑडिटर को उपलब्ध कराना ।
	<b>यू—</b>	अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तुत किये गये सुझावों एवं आक्षेपों पर टीप अंकित कर संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत कर निर्धारित समयावधि में पंजीयक /रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना ।
	<b>वी—</b>	बजटीय नियंत्रण रखना ।
	<b>डब्ल्यू—</b>	बजट में स्वीकृत की गई राशि के अंतर्गत कार्यालयीन उपयोग हेतु स्टेशरी, पुस्तकें, आकस्मिक व्यय, टेलीफोन, बिजली, रिपेयर एवं स्थायी संपत्ति के मैटेनेंस को स्वीकृत करना या इस संबंध में अधिकार अपने अधीनस्थों को अंतरित करना ।
	<b>एक्स—</b>	वैधानिक दस्तावेजों जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, उपविधि, आमसभा/संचालक मंडल/उपसमिति की कार्यवाही पंजी, संस्था पंजी, अंशपूंजी पंजी आदि वैधानिक दस्तावेजों को सुरक्षित रखना या सुरक्षित रखावाना ।
	<b>जेड—</b>	स्थानांतरण के आदेश प्रदान करना ।

**क्र. 24—लेखा परीक्षण :-**

1	लेखा परीक्षण अधिनियम की धारा 58 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा के लिये या संपरीक्षक या अनुमोदित सनदी लेखापाल में से कराया जाएगा ।
2	अंकेक्षक नियुक्ति के संबंध में अधिनियम/नियमों या पंजीयक द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया व अधिकारिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

**क्र. 25—उपसमितियाँ :-**

1	संस्था अपने कार्य निष्पादन के लिये संचालक मंडल और उप समितियों का गठन कर सकती है । ऐसी गठित की गई समितियों में संचालक मंडल के 2 निर्वाचित सदस्य, 1 पंजीयक प्रतिनिधि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व संस्था का वरिष्ठ अधिकारी जिससे संबंधित उपसमिति है वह पदेन सचिव होगा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव होंगे । इन समितियों में निर्वाचित दो संचालकों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा ।								
2	गठित की गई समितियों के कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का कोरम होगा । समिति आहूत किये जाने के लिये न्यूनतम 7 दिन का सूचनापत्र जारी किया जाएगा । समिति में प्रशासक नियुक्त किये जाने की स्थिति में समिति की अध्यक्षता प्रशासक द्वारा की जाएगी । मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव होगा ।								
	<p><b>उपसमितियाँ—</b></p> <p>1— स्टाफ उप समिति</p> <p>2— भंडारक्रय उप समिति</p> <p>3— व्यवसाय संचालन समिति</p> <p>4— क्रय विक्रय समिति</p> <p><b>उपसमितियों के सदस्य—</b></p> <table> <tr> <td>1— समिति के अध्यक्ष</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2— निर्वाचित संचालकों में से</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3— पंजीयक के प्रतिनिधि</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4— मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव</td> <td>1</td> </tr> </table> <p><b>कोरम—</b></p> <p>कोरम कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक का होगा ।</p> <p><b>सूचना—</b></p> <p>बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।</p>	1— समिति के अध्यक्ष	1	2— निर्वाचित संचालकों में से	2	3— पंजीयक के प्रतिनिधि	1	4— मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव	1
1— समिति के अध्यक्ष	1								
2— निर्वाचित संचालकों में से	2								
3— पंजीयक के प्रतिनिधि	1								
4— मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव	1								

**क्र. 26—लेखा वर्ष :-**

1	संस्था का लेखा वर्ष होगा जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा ।
---	--

**क्र. 27—निधियां तथा लाभ का विनियोजनः—**

1.	<p>अधिनियम की धारा 43 एवं धारा 43(क) के अंतर्गत लाभ का विनियोजन किया जाएगा जिनमें मुख्य रूप से रिजर्व फण्ड 25 प्रतिशत की सीमा तक, भविष्यनिधि, अवक्षयण, आयकर, राज्य/जिला सहकारी संघ को देय अभिदान, .....निधि 2 प्रतिशत की सीमा में, अन्य ऐसी निधियां जो संस्था के व्यवसाय के अनुरूप हों ।</p> <p>निधियों का विनियोजन सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक या पंजीयक व्यापार निर्देशित किये गये बैंकों में किया जाएगा ।</p>
----	---

**क्र. 28—साधारण सभा में मताधिकार :—**

1	<p>साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार होगा ।</p>
---	--

**क्र. 29—कर्मचारियों की नियम एवं सेवा शर्तें :—**

1	<p>म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 55(1) के अंतर्गत कर्मचारी सेवानियम तैयार कर अनुमोदित कराया जाएगा । तदनुसार कर्मचारियों का नियमन—नियंत्रण होगा ।</p>
2	<p>म.प्र. शासन/केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में बनाये गये अधिनियम, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्यनिधि, बीमा प्रभावशील होंगे ।</p>

**क्र. 30—विवरणियां :—**

1	<p>म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों के अंतर्गत विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी । जिसमें निर्धारित किये गये विषयों पर जानकारी दिया जाना बंधनकारी है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस कार्य के लिये संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत कर सकते हैं ।</p>
---	---

**क्र. 31—परिसमापन :—**

1	<p>संस्था यदि अपने निर्धारित उद्देश्यों के क्रियान्वयन में सफल नहीं है तो संस्था स्वयं या पंजीयक व्यापार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत उसे परिसमापन में लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत होगी ।</p>
---	---